



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 266]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 1977/आषाढ़ 6, 1899

No. 266]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 1977/ASADHA 6, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th June 1977

S.O. 421(E)/18E/IDRA/77—Whereas by the Order of the Government of India, in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 485(E)/18AA/IDRA/75 dated the 8th September, 1975, issued under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (hereinafter referred to as the said Order), as amended by Order No S.O. 512(E)/18AA/IDRA/75 dated the 12th September, 1975, the Central Government have authorised Shri M. K. Modwel to take over the management of the industrial undertaking known as Messrs. Ancillary Industries (Cranks) Private Limited, Calcutta (hereinafter in this Order referred to as the industrial undertaking), for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E, read with sub-section (5) of section 18AA, of the said Act, the Central Government specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said Order

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956. Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.

(1)	(2)
Section 294A	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 294AA	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. F. 2/30/75-CUC]
A. K. GHOSH, Addl. Secy

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 1977

का० प्रा० 421(प्र) / 18 ई.आई० जी० आर० ए०/77.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जारी किए गए आदेश सं० का०प्रा० 512(प्र)/18ए ए/आई०जी०आर०ए०/75, दिनांक 12 सितम्बर, 1975 द्वारा यथा सशोधित भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में आदेश सं० का०प्रा० 485(प्र)/18ए ए/आई०जी०आर०ए०/75 दिनांक 8 सितम्बर, 1975 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) श्री एम० के० मांडवेल को, मैसर्स एन्सोलरी इंडस्ट्रीज (फ्रेंकस) प्रा० लि०, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 कक की उपधारा (5) के साथ पठित, धारा 18 ड की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएँ विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति में लागू होता रहेगा जिसे रीति में वह उक्त आदेश के जारी होने से पूर्व लागू होता था।

अनुसूची

कंपनी अधिनियम, 1956 के उपाबंध वे उपबन्धन, निर्बन्धन और परिसीमाएँ जिनके अधीन रहते हुए अनुसूची (1) में वर्णित उपबन्ध इस उपक्रम को लागू होंगे।

1	2
धारा 294 के	इस खण्ड के उपबन्ध, इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे,
धारा 294 क क	इस खण्ड के उपबन्ध, इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।

[स० फा० 2/30/75-सी०यू०सी०]

अरुण घोष, अपर सचिव।

मुद्रित तथा निर्व्यक्त, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977